

HIN1B04b - Leçons 47 et 45

(sans, cela fait X temps que, dès que, comme si ; emplois du suffixe vâlâ)

Exercices / अभ्यास - Corrigé-type

I -

- १) राजू ने माँ-बाप से पूछे बिना कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया था ।
- २) आप इन्हें चखे बिना कैसे कह सकती हैं कि इन समोसों में मिर्च ज़्यादा है ?
- ३) सर्दों के मौसम में बच्चे कभी-कभी (स्कूल) बिना नहाए (स्कूल) चले जाते थे ।
- ४) बच्ची जवाब दिए बिना रोती रही थी ।
- ५) वीणा (दुकान से) (बिना) कुछ खरीदे (बिना) (दुकान से) निकली थी ।

II -

- १) उनको/उन्हें भारत गए कितना अरसा हो गया है ?
- २) मेरे भाई को गर छोड़े दो साल होनेवाले हैं ।
- ३) सिल्वी, तुम्हें/तुमको दिल्ली में काम करते (हुए) कितने साल हो गए हैं ?
- ४) हमारे पड़ोसियों को नई गाड़ी/कार लिए/खरीदे डेढ़ महीना हो गया होगा ।
- ५) उन/इन छात्राओं को कथक सीखते (हुए) छः महीने हो चुके हैं ।

III -

- १) जैसे ही/ज्यों ही घंटी बजी (वैसे ही/त्यों ही) राहुल दरवाज़ा खोलने भाग गया ।
- २) देखना : जैसे ही/ज्यों ही छुट्टियाँ शुरू हो जाएँगी (वैसे ही/त्यों ही) मौसम खराब हो जाएगा !
- ३) जैसे ही/ज्यों ही कोई बिल्ली बागीचे में घुस जाती थी (वैसे ही/त्यों ही) कुत्ता भौंकना शुरू कर देता था ।
- ४) जैसे ही/ज्यों ही वह (लॉन पर किसी चिड़िया को) (एक चिड़िया लॉन पर) देखती थी वैसे ही/त्यों ही) बिल्ली उस पर टूट पड़ती थी ।
- ५) जैसे ही/ज्यों ही आपका सूट तैयार होगा (वैसे ही/त्यों ही) मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा ।

IV -

- १) घंटी बजते ही राहुल दरवाज़ा खोलने भाग गया ।
- २) देखना : छुट्टियाँ शुरू होते ही मौसम खराब हो जाएगा !
- ३) किसी बिल्ली के बागीचे में घुसते ही कुत्ता भौंकना शुरू कर देता था ।
- ४) (लॉन पर किसी चिड़िया को) (एक चिड़िया लॉन पर) देखते ही बिल्ली उस पर टूट पड़ती थी ।
- ५) आपका सूट तैयार होते ही मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा ।

V -

- १) उसकी आवाज़ सुनकर नानाजी ऐसे हँसने लगे जैसे उनको/उन्हें कोई हास्यजनक बात याद [में] आई हो (थी)।
- २) बच्चे ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें सरदी लग रही हो/थी ।
- ३) मृदुला खिड़की से बार-बार झाँक रही है मानो/जैसे वह किसी का इन्तज़ार कर रही हो ।
- ४) दादीजी ने पिताजी की ओर देखा मानो/जैसे इनकी बात उनकी समझ में/उनको समझ में न आई हो।
- ५) कुत्ता ऐसे भौंकने लगा था जैसे उसने कुछ सुना हो ।

VI -

- १) अगर लड़कीवाले दहेज देने से इनकार करेंगे तो तुम्हारे पिता यह शादी नहीं होने देंगे ।
- २) देखो, मेरी माँ को सिगरेट पीनेवाली लड़कियाँ बिलकुल अच्छी नहीं लगतीं !
- ३) पुलिसवाले ने सीटी मारी लेकिन स्कूटर (चलाने) वाला नहीं रुका ।
- ४) मैं कौनसी कमीज़ पहनूँ आज, लालवाली या फूलोंवाली ?
- ५) अरे, तुम लोग जल्दी आ जाओ, फ़िल्म शुरू होनेवाली है !
- ६) अभी बाहर मत जाओ, बारिश होनेवाली है !
- ७) मैं बागीचेवाला दरवाज़ा बन्द करने ही वाला था कि पीछेवाले पड़ोसी ने मुझे आवाज़ दी ।
- ८) दादीजी को डेढ़ बजे वाली बस लेनी थी, अब आगरा पहुँचनेवाली होंगी ।
- ९) - क्या कलवाली फ़िल्म तुम्हें पसन्द आई ? - नहीं, मुझे सस्पेंस वाली फ़िल्में अच्छी नहीं लगतीं ।
- १०) एक आदमी रेल के डिब्बे में सामान के तख्ते पर एक भारी सन्दूक रखनेवाला था कि नीचेवाली सीट पर बैठी हुई महिला बोली : "इसे किसी और जगह रखिए, कहीं मेरे सिर पर न आ गिरे ।" आदमी ने उत्तर दिया : " चिन्ता न कीजिए, इसमें कोई टूटनेवाली चीज़ नहीं है !"

VII -

- 1) रानी को देर हो रही थी और वह स्कूल नाश्ता किए बिना चली गई थी ।
- 2) मेरे भाई को सितार सीखते हुए ढाई साल होनेवाले हैं । वह दिन-ब-दिन/दिन पर दिन तरक्की/प्रगति कर रहा है/करता जा रहा है ।
- 3) शहज़ादी/राजकुमारी आँखें बन्द किए अपने पलंग पर (ऐसे) लेटी हुई थी जैसे/मानो (वह) गहरी नीन्द में सो रही हो (थी) ।
- 4) (तुम) इसे देखे बिना (तुम) कैसे कह सकती हो कि सोमनाथ की फ़िल्म दिलचस्प/रोचक नहीं है ?
- 5) मेरे पिता को गुसलखाने/स्नानघर/बाथरूम में (गाना) गाते हुए सुनकर मेरी माँ यह कहे बिना नहीं रह सकी थी/अपने को यह कहने से नहीं रोक सकी थी कि आज बारिश ज़रूर होगी ।

VIII -

- १) डॉक्टर : "आपका वज़न कितना है ?"
- मरीज़ : "चश्मे के साथ पचहत्तर किलो ।"
- डॉक्टर : "और बिना चश्मे के ?"
- मरीज़ : "वह मुझे दिखता नहीं !"
- २) बेटा बाप से : "पापा, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊँगा कि मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जा सकूँ ।"
- बाप, ठंडी साँस लेते हुए/लेकर : "इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ हूँ ।"